

मुख्य मेनू – अप्रैल - अक्टूबर 2018

	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	गुरुवार	शुक्रवार
सप्ताह 1 अप्रैल 16	बेकड सांसिज रोल टमाटर रेलिश मैश किए हुए आलू	भुना हुआ बीफ और यॉर्कशायर हलवा	बारबिक्यू चिकन फिल्लेट ओवन में पके हरे-भरे डाइस्ट आलू	स्वीट चिली टर्की चावल	बेकड फिश फिंगर्स और टमाटर का केचप चिप्स
मई 7	मीठे आलू और दाल करी नान ब्रेड	कॉर्न नगेट (शाकाहारी)	पिज्जा	शाकाहारी सांस और ग्रैवी मैश किए हुए आलू	वेजिटेबल लसाग्ने गार्लिक ब्रेड
जून 4	चावल				
जून 25	स्वीटकॉर्न हरी बीन्स	भुने हुए आलू ब्रोकोली, गाजर और फूलगोभी मिक्स ग्रेवी	स्वीटकॉर्न मटर	ब्रोकोली फूलगोभी	बेकड बीन्स मटर
जुलाई 16					
सितंबर 17					
अक्टूबर 8	आइसक्रीम स्मूदी, एप्पल लॉली	मिनी बिस्कुट और फल वेजीस	फ्रूट फ्लैपजैक	जेली, ऐन्जल डिलाइट, योगर्ट, ताज़ा फल	लेमन माफिन
सप्ताह 2 अप्रैल 23	बीफ बोलोग्नीस पास्ता बेक गार्लिक ब्रेड फिंगर	चिकन रोस्ट और ग्रैवी भुना हुआ आलू	वेजिटेबल टजीन ज्वेलड कूस्कूस	चिकन, वेजिटेबल और आलू बेक	बैटर्ड फिश और टमाटर का केचप चिप्स
मई 14	शाकाहारी पफ मैश किए हुए आलू	ब्रोकोली और फूलगोभी बेक टमाटर ब्रेड कोलस्लॉ	पिज्जा	इटालियन टमाटर पास्ता गार्लिक ब्रेड फिंगर	फ़लाफल रेप पर टमाटर ड्रेंसिंग और मिश्रित सलाद
जून 11					
जुलाई 2	सब्जियों की तिकड़ी बेकड बीन्स	डाइस्ट गाजर हरी बीन्स	हरी बीन्स स्वीटकॉर्न	ब्रोकोली बैटन गाजर	मटर मिश्रित मिर्च के साथ स्वीटकॉर्न
सितंबर 3					
सितंबर 24					
अक्टूबर 15	आइसक्रीम, स्मूदी, एप्पल लॉली	मिनी बिस्कुट और फल वेजीस	गाजर केक	जेली, ऐन्जल डिलाइट, योगर्ट, ताज़ा फल	चाँकलेट ओट के कुकी
सप्ताह 3 अप्रैल 30	बबल सैल्मन पट्टे ओफ दी डे	भुना पोक और ग्रैवी भुने हुए आलू	तीखी चिकन करी नान ब्रेड चावल	बेक किए हुए पोक के सांसिज आलू वेजीस	बेकड फिश फिंगर्स और टमाटर का केचप चिप्स
मई 21	मैक्रोनी पनीर गार्लिक ब्रेड फिंगर	कॉर्न टमाटर पास्ता बेक	पिज्जा कोलस्लॉ	पास्ता के साथ टमाटर की चटनी में शाकाहारी बॉल्स गार्लिक ब्रेड फिंगर	लाल लेन्टिल फ्लैन नए आलू
जून 18					
जुलाई 9	मटर	ब्रोकोली, गाजर और फूलगोभी मिक्स	हरी बीन्स डाइस्ट गाजर	ब्रोकोली गाजर	बेकड बीन्स मटर
सितंबर 10					
अक्टूबर 1	आइसक्रीम, स्मूदी, एप्पल लॉली	मिनी बिस्कुट और फल वेजीस	ब्राउनी	जेली, ऐन्जल डिलाइट, योगर्ट, ताज़ा फल	पनीर और एप्पल वेजीस

अतिरिक्त ब्रेड और मौसमी सलाद के साथ परोसा जाता है

ताज़े फल, फ्रूटी पॉट्स, ऑर्गेनिक योगर्ट, चावल के पॉट्स, पनीर और बिस्कुट का चयन रोजाना उपलब्ध होता है